

STA : VIII  
SUB : II LANG HINDI

MONTH: APRIL (NOTES)

## प्रार्थना

I कविता - कंठस्थ  
1-9 पंक्तियाँ (P.No. 1)

ईश्वर का ध्यान होगा कामयाब

II शब्दार्थ (P.No. 2)

III प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(क) हम ईश्वर की वंदना क्यों करते हैं?  
उ० हम ईश्वर की वंदना इसलिए करते हैं,  
क्योंकि इससे हमें जीवन में सच्चे रास्ते पर  
चलकर सत्कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

(ख) निराशा होने पर हम किसकी शरण में जाते  
हैं और क्यों?

उ० निराशा होने पर हम ईश्वर की शरण में  
जाते हैं, क्योंकि वह हमें हर मुसीबत से लड़ने  
की शक्ति देता है और मन को शांति प्रदान  
करता है।

IV लिखित अभ्यास

सही उत्तर पर (✓) का चिह्न लगाइए :

(क) कामयाब (ख) धर्म (ग) दृढ़ शक्ति

## ५ विलोम शब्द लिखिए

क.	आशा	x	निराशा
ख.	सफल	x	असफल
ग.	पवित्र	x	अपवित्र
घ.	विश्वास	x	अविश्वास
ङ.	धर्म	x	अधर्म
च.	बड़ा	x	छोटा

NOTE : Complete all book back Exercises.

अनुच्छेद : सादा जीवन उच्च विचार  
(P. No. 184) (भाषाभारती)

पर्यायवाची 1-15 (P. No. 31, 32)  
विलोम 1-15 (P. No. 36)

भाषा बोली, लिपि और व्याकरण, वगैरे विचार

P. No. 5-18 Refer (भाषाभारती)

NOTE : Complete all the book back Exercises.



## इन्कीसवीं सदी का भारत

I

शब्दार्थ

P. No. 9

II

प्रश्नों के उत्तर लिखिए: (मौखिक)

(क) भारतवासी दृढ़ विश्वास के साथ क्या कहते हैं?

उ० भारतवासी दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा देश २१ वीं शताब्दी में विज्ञान की नई उपलब्धियों से समृद्धशाली औद्योगिक राष्ट्र के रूप में दमक रहा है।

(ख) कृषि क्षेत्र के विकास में किसका बहुत बड़ा योगदान है?

उ० कृषि क्षेत्र के विकास में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है।

(ग) हमारे देश को महाशक्ति का प्रतीक बनाने के लिए हमारा परम कर्तव्य क्या है?

उ० हमारे देश को महाशक्ति का प्रतीक बनाने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, वनों को न काटें, कृषि-आधार रूपी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकें, बढ़ती हुई आबादी को रोकें, वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग करें और अपने आचार-व्यवहार में सुधार लाएँ।

घ० शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

उ० शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा "प्रौढ़ शिक्षा अभियान" और "सर्व शिक्षा अभियान" जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

II सही उत्तर पर (✓) का चिह्न लगाइए :

क. सोने की चिड़िया

ख. 18 मई 1974

ग. राफ़े

घ. कंप्यूटर की

III प्रश्नों के उत्तर लिखिए

क. भारत को महाशक्ति बनाने में विज्ञान ने क्या भूमिका निभाई है?

उ० हमारे देश को महाशक्ति बनाने में विज्ञान का बड़ा हाथ है। हमारी आवधिक शक्ति ने अल्प प्रगतिशील देशों को आकर्षित कर दिया है। विज्ञान की नई उपलब्धियों ने देश को मजबूत कर दिया है। इस तरह विज्ञान ने बहुत योगदान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ख. हम किस प्रकार देश को महाशक्तिशाली बना सकते हैं?

उ० मुख्य (ग) उत्तर लिखें।

ग. आज के समय में कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जिनमें निरंतर प्रगति हो रही है?

उ० हमारे देश में औद्योगिक, शैक्षिक, आर्थिक, कृषि, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन और संचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है।

घ. भारत इतनी प्रगति करते हुए भी किन संघर्षमय स्थितियों का सामना कर रहा है?

उ० पर्यावरण की हानि, गरीबी और भ्रष्टाचार



के कारण भारत इतनी प्रगति करने हुए भी  
संदर्भमय स्थितियों का सामना कर रहा है।

3. कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने में कौन-सी  
क्रांति का मुख्य योगदान है?

उ० देश में कृषि उत्पादन प्रगति की ओर आग्रसर  
है। बाढ़, सूखे आदि से निपटने के लिए  
उपयुक्त साधन और तकनीक उपलब्ध है।  
हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नई-नई  
योजनाएँ और नीतियाँ बनाई जा रही हैं। कृषि  
क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए सबसे बड़ा  
योगदान देशभर में चलाई गई 'हरित क्रांति'  
को जाता है।

NOTE : COMPLETE ALL THE BOOK BACK  
EXERCISES